



## सराहनीय कार्य थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज

**25,000 रुपये का पुरस्कार घोषित अपराधी / डबल मर्डर मे वांछित अभि० गिरफ्तार, कब्जे से आला कत्ल 01 अदद देशी बन्दूक 315 बोर व 01 अदद जिन्दा कारतूस बरामद ।**

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कन्नौज श्री कुँवर अनुपम सिंह द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में, श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक महोदय कन्नौज डॉ० श्री अरविन्द कुमार के कुशल निर्देशन में, क्षेत्राधिकारी सदर महोदय कन्नौज डॉ० प्रियंका बाजपेई के पर्यवेक्षण में एवं थाना प्रभारी कोतवाली कन्नौज श्री राजकुमार सिंह के नेतृत्व में थाना कोतवाली कन्नौज पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.01.2023 को 25,000 रुपये के पुरस्कार घोषित/ डबल मर्डर मे वांछित अभियुक्त विनोद पुत्र रामलखन निवासी ग्राम भिम्मापुरवा थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज (सम्बन्धित मु०अ०सं० 642/2022 धारा 302/201/147/148/149 भादवि) को आला कत्ल एक अदद देशी बन्दूक 315 बोर अवैध व 01 अदद जिन्दा कारतूस के साथ गिरफ्तार किया गया ।

थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 642/2022 धारा 302/201/147/148/149 भादवि में वांछित चल रहे अभियुक्त विनोद पुत्र रामलखन निवासी ग्राम भिम्मापुरवा थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज के गिरफ्तारी से बचने व अधिक समय से वांछित होने पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय कन्नौज द्वारा 25,000 रुपये का इनाम घोषित किया था । कोतवाली कन्नौज पुलिस द्वारा आज दिनांक 09.01.2023 को ग्राम मिश्रीपुर से अभि० विनोद उपरोक्त को आला कत्ल एक अदद देशी बन्दूक 315 बोर अवैध व 01 अदद जिन्दा कारतूस 315 बोर के साथ गिरफ्तार किया गया । बरामदगी के आधार पर थाना हाजा मु०अ०सं० 12/2023 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम पंजीकृत कर गिरफ्तार अभि० को माननीय न्यायालय के समक्ष नियमानुसार प्रस्तुत किया जा रहा है। उक्त अभियोग में अब तक कुल 07 अभि० गणों को जेल भेजा जा चुका है ।

### ➤ गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण: -

1. विनोद पुत्र रामलखन उम्र 35 वर्ष निवासी ग्राम भिम्मापुरवा थाना कोतवाली कन्नौज जनपद कन्नौज



➤ घोषित पुरस्कार का विवरण : - 25,000/- रुपये इनाम ।

➤ आपराधिक इतिहास अभि० विनोद उपरोक्त: -

1. मु०अ०सं० 642/2022 धारा 302/201/147/148/149 भादवि
2. मु०अ०सं० 12/2023 धारा 3/25/27 आयुध अधिनियम

➤ बरामदगी का विवरण:-

1. आला कत्ल एक अदद देशी बन्दूक 315 बोर नाजायज
2. एक अदद जिंदा कारतूस 315 बोर नाजायज

➤ गिरफ्तारी करने वाली टीम:-

1. थाना प्रभारी श्री राजकुमार सिंह थाना कोतवाली कन्नौज
2. उ०नि० श्री प्रमोद कुमार तिवारी थाना कोतवाली कन्नौज
3. हे०का० 238 कृष्णपाल सिंह थाना कोतवाली कन्नौज
4. का० 384 विकुल कुमार थाना कोतवाली कन्नौज
5. का० 990 इन्द्रपाल सिंह थाना कोतवाली कन्नौज
6. का० 984 शैलेन्द्र थाना कोतवाली कन्नौज
7. का० 578 गौरव यादव थाना कोतवाली कन्नौज